

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 413] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 19, 1983/भाद्र 28, 1905
No. 413] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 19, 1983/BHADRA 28, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

*Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation*

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

आदेश

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1983

का०आ०सं० ई (सो) ओ 1977/ए एम (271):—आयात तथा निर्यात
(नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में

और आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित आदेश की रचना करती है, मर्नातु :-

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) मट्टारहवां संशोधन आदेश, 1983 की संज्ञा दी जाये।
2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में, खुले सामान्य लाइसेंस-3 के कालम 4 की क्रम सं० 1 के सामने की शर्त सं० (2) के पश्चात् निम्नलिखित को जोड़ा जायेगा :-

“(3)—कम से कम 21 दिनों की अवधि के लिये भैंसों का संगरोध जिसके दौरान भैंसों की जांच की जायेगी और पशु-प्लेग, पैर और मुंह की बीमारी के टीके लगेंगे और तपेक्षिक और ब्रूसेल्लोसिस की भी जांच की जायेगी।”

[मि०सं० 34(4)/83-ई-2]

पी०सी० जैन, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

ORDER

New Delhi, the 19th September, 1983

S.O. No. E(C)O, 1977/AM(271).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947, (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely:—

1. This Order may be called the Exports (Control) Eighteenth Amendment Order, 1983.
2. In the Exports (Control) Order, 1977, in OGL-3, in col. 4 against S. No. 1 the following shall be added after condition No. (ii) :—
“(iii)—Quarantine of Buffaloes for a minimum period of 21 days during which period the buffaloes will be subject to inspection and vaccination for rinderpest, foot and mouth disease and will also be tested for Tuberculosis and Brucellosis”.

[F. No. 34(4)/83-EII]

P. C. JAIN, Chief Controller of Imports & Exports